

## युवा भागीदारी से समृद्ध मध्यप्रदेश

### MP Digital YUVA प्रतियोगिता के लिए नियम और शर्तें

1. यह प्रतियोगिता केवल **मध्यप्रदेश के मूल** निवासियों के लिए है।
2. प्रतिभागियों की उम्र **15 से 40 वर्ष** के बीच होनी चाहिए।
3. यह प्रतियोगिता पूर्णतः **निः शुल्क** है।
4. प्रत्येक व्यक्ति केवल **एक बार** ही **पंजीयन** (रजिस्ट्रेशन) कर सकता है।
5. रजिस्ट्रेशन और प्रतियोगिता की अंतिम तिथि **19 अक्टूबर 2022 शाम 05:00 बजे** तक है।
6. तय मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिभागी पंजीयन के बाद अपने संबंधित सोशल मीडिया और प्रोफाइल/पेज पर शासन की नीतियों पर आधारित **वीडियो, पोस्टर, ग्राफिक्स, ब्लॉग, स्लोगन** आदि के रूप में **प्रविष्टियों (entries)** को साझा करेंगे।
7. सामग्री साझा करने वाले प्रतिभागियों को **चयनित योजनाओं के सकारात्मक लाभ, पात्रता और शर्तों** को सही ढंग से प्रतिबिंबित करना होगा।
8. योजनाओं से संबंधित **सामग्री (content)** प्रतिभागी द्वारा **स्वयं के द्वारा बनाई गई** होनी चाहिए। विचार मौलिक हो और पोस्ट की गई किसी भी सामग्री में **कॉपीराइट** अथवा **प्रचलित विधिक प्रावधानों** का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
9. प्रतिभागियों की सुविधा के लिए **चयनित योजनाओं की** जानकारी और इनकी लिंक **MPMyGov** पोर्टल (mp.mygov.in) पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिभागी इनकी मदद से **रचनात्मक और तथ्यपरक सामग्री** का सृजन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शासकीय योजनाओं के बारे में जागरूक कर सकते हैं।
10. प्रत्येक पोस्ट (**ऑडियो /वीडियो /ग्राफिक्स के कैप्शन**) में हैशटैग **#MPDigitalYuva** का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
11. फोटोग्राफ/ग्राफिक्स को **jpg, .png** प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। **वीडियो 1 मिनट** से अधिक अवधि का नहीं होना चाहिए।
12. समस्त प्रतिभागी विजेताओं की प्रविष्टियों को **पुरस्कार/प्रोत्साहन** राशि पाने के लिए सम्बंधित प्लेटफार्म की **न्यूनतम अर्हता** प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. प्रतिभागी निम्न में से कोई भी **Social Media Platform** का उपयोग कर सकते हैं -

- **Facebook Profile / Facebook Page**
- **Twitter**
- **Instagram**

- **YouTube**
- **Public App**

14. प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 'न्यूनतम अर्हताएं' -

| S. No | Social Media Platform              | Minimum Eligibility Criteria for Registration | Minimum Eligibility Criteria for Winners' Selection |
|-------|------------------------------------|---|---|
| 1     | Facebook Profile/<br>Facebook Page | 2000 Followers                                | Minimum 2k Likes                                    |
| 2     | Twitter                            | 1000 Followers                                | Minimum 1k Likes                                    |
| 3     | YouTube                            | 1000 Subscribers                              | Minimum 2k Views                                    |
| 4     | Public App                         | 1000 Followers                                | Minimum 5k Views                                    |
| 5     | Instagram                          | 1000 Followers                                | Minimum 1k Likes                                    |

15. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को अपने **सोशल मीडिया प्रोफाइल को सार्वजनिक (public)** करना होगा और विजेताओं की घोषणा होने तक उन्हें **खुला (open)** रखना होगा।

16. प्रतिभागी द्वारा पोस्ट की गई **सामग्री (ऑडियो/विडियो/ग्राफ़िक्स)** राज्य सरकार (**जनसंपर्क विभाग**) की संपत्ति होगी। प्रतियोगिता के विजेता द्वारा प्रस्तुत सामग्री का उपयोग करने के लिए **सर्वाधिकार जनसंपर्क विभाग**, मप्र शासन के पास सुरक्षित हैं।

17. **Likes/ Views/ Followers** की संख्या के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और दिए गए विवरणों की जाँच करने के बाद **विजेताओं का चयन**, प्रतिभागियों के द्वारा सभी **योग्यताओं को पूरा करने और अधिकतम लोकप्रिय** होने या **पसंद (like)** किए जाने वाले **मापदंडों** के आधार पर किया जाएगा।

18. पुरस्कार राशि केवल **NEFT** द्वारा दी जाएगी, इसके लिए बैंक डिटेल की जानकारी प्रतियोगिता के **दूसरे चरण के पंजीयन** के दौरान फॉर्म में ली जायेगी।

19. चयनित विजेता (प्रतिभागी) द्वारा पंजीयन के दौरान उपलब्ध कराए गए **मोबाइल नंबर / ईमेल** आदि की जानकारी गलत पाए जाने या संपर्क नहीं हो पाने की स्थिति में उस विजेता का पुरस्कार रद्द कर दिया जायेगा।

20. प्रतियोगिता से जुड़े किसी भी **प्रारूप (ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या ग्राफिक)** में किसी भी प्रतिभागी या तीसरे पक्ष द्वारा ली गयी आपत्ति का जवाब देने के लिए प्रतिभागी स्वयं जिम्मेदार होगा।